

**प्रमाण-पत्र**

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह-111,  
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
अम्बेडकरनगर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

**विषय:-**

प्रमाण-पत्र बावत प्रार्थी के जी0पी0एफ0 खाता संख्या-LJU22803  
से मु0 10,00,000/- (दस लाख रुपये) तात्कालिक आवश्यकता  
हेतु:-

महोदय,

श्रीमान् जी, ससम्मान निवेदन यह है कि प्रार्थी वर्तमान में जनपद-अम्बेडकरनगर (अकबरपुर) में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी ने उ0प्र0 न्यायिक सेवा में दिनांक 27.09.1999 को नियुक्ति पायी है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.09.2019 को अपनी 20 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली गयी है। प्रार्थी उपरोक्त सेवा में कभी भी निलम्बन में नहीं रहा है। प्रार्थी का कनिष्ठ पुत्र यश पवार ब्रिटेन की ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में उच्चतर शिक्षा एम.बी.ए. करना चाहता है, जिसके लिए उसके प्रवेश की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रार्थी अपने उपरोक्त पुत्र की ब्रिटेन में उच्चतर शिक्षा, वीजा, यात्रा टिकट आदि खर्चों के लिए सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) नियमावली, 1985 की धारा-16 व 17 में वर्णित नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपनी भविष्य निधि खाता संख्या-LJU22803 से अन्तिम आहरण के रूप में वांछित धनराशि मु0 10,00,000/- रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त युनिवर्सिटी द्वारा जारी प्रपत्र के अनुसार एम.बी.ए. कोर्स की एक वर्ष की फीस मु0 16,000/- डॉलर है, जो कि यूरो डॉलर की दर के अनुसार मु0 16,00,000/- रुपये के बराबर होती है। मुझ प्रार्थी का एक चालू/बचत खाता संख्या-10678723967, एस.बी.आई. अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में संचालित है, जिसमें दिनांक 29.01.2021 को मु0 6,11,393/- रुपये शेष है। प्रार्थी के पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई आर्थिक स्रोत नहीं है। यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित धनराशि प्रदत्त की जाती है तो प्रार्थी उक्त धनराशि का उपयोग अपने पुत्र यश पवार की उच्चतर शिक्षा, वीजा, टिकट खर्च व अन्य खर्चों पर व्यय करेंगा। यदि कोई धनराशि बचती है तो माननीय उच्च न्यायालय को वापिस कर देगा।

दिनांक-02.02.2021



(0100) 2102 23967 '1-02 2021

महानिबन्धक महोदय को भेजा जा रहा है।

(महेन्द्र सिंह-111)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
अम्बेडकरनगर।

I.O.No 5854  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश